



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 8) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2012

सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-05/2009/981—श्री राधा राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, शीर्ष कार्य अंचल, बागमती नगर, सीतामढ़ी के विरुद्ध उक्त अंचल में पदस्थापन अवधि में (रामाधार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में विभागीय निदेश के विपरित प्रतिशपथ पत्र दायर करने, एवं तथ्य विवरणी को अपने कार्यालय के अभिलेखों से मिलान नहीं करने से संबंधित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए लिए, विभागीय संकल्प सं0-686 दिनांक 22.4.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस बीच श्री राम दिनांक 30.4.11 को सेवानिवृत्त हो गये। तत्पश्चात विभागीय आदेश सं0-39 सह पठित ज्ञापांक 344 दिनांक 9.4.12 द्वारा इनके विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्पूरित करते हुए विभागीय कार्यवाही जारी रखा गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राम, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध उक्त आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया हैं समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राधा राम, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री राधा राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, शीर्ष कार्य अंचल, बागमती नगर, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को दोषमुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश श्री राधा राम, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को संसूचित किया जाता हैं।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 8-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>